



विशेष रिपोर्ट


# एनर्जी

( अगस्त 2023 )





स्रोत: रायटर्स एवं एसएमसी रिसर्च



स्रोत: रायटर्स एवं एसएमसी रिसर्च


जुलाई में, कच्चे तेल की कीमतों में जनवरी 2022 के बाद से 15.5% से अधिक की सबसे तेज मासिक वृद्धि दर्ज की गई, इस वर्ष के बाकी दिनों में वैश्विक स्तर पर आपूर्ति में कमी और बढ़ती मांग के संकेतों से कीमतों को मदद मिली है। प्रमुख तेल निर्यातकों सऊदी अरब और रूस द्वारा उत्पादन में कटौती के बाद आपूर्ति में कमी के संकेत के कारण पिछले महीने तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई थी। दोनों देशों द्वारा हाल ही में उत्पादन में कटौती से वर्ष के शेष समय में बाजार में सप्लाई कम रहने की भी उम्मीद है। एक रॉयटर्स सर्वेक्षण में पाया गया कि जुलाई में सऊदी अरब के तेल उत्पादन में 860,000 बैरल प्रति दिन की गिरावट हुई, जबकि पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन का कुल उत्पादन 840,000 बैरल प्रति दिन कम था। आपूर्ति में कटौती के अलावा, अमेरिकी मुद्रास्फीति में कमी और लीबिया और नाइजीरिया में आपूर्ति में व्यवधान के कारण कच्चे तेल की कीमतें भी अधिक चल रही हैं। चीन द्वारा कच्चे तेल का आयात, जो साल-दर-साल जून में 45.3 प्रतिशत बढ़ा, भी तेजी की गति का समर्थन कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए) ने अनुमान लगाया है कि 2023 में वैश्विक स्तर पर तेल मांग 2.2 मिलियन बैरल प्रति दिन बढ़कर 102.1 मिलियन बैरल प्रति दिन तक पहुंच जाएगी, जो एक नया रिकॉर्ड है।



### आउटलुक

- वैश्विक मंदी, उच्च मुद्रास्फीति और साथ ही चल रहे भू-राजनीतिक घटनाक्रमों की आशंकाओं के कारण तेल की कीमतों में मौजूदा अस्थिरता जारी रह सकती है।
- अमेरिकी अर्थव्यवस्था गति पकड़ रही है और मुद्रास्फीति धीरे-धीरे फेड के सुविधाजनक स्तर की ओर बढ़ रही है, जिससे अमेरिका में ब्याज दर वृद्धि की प्रक्रिया की समाप्ति की संभावनाएं बढ़ गई हैं।
- वैश्विक कच्चे तेल की मांग में वृद्धि और ओपेक की ओर से उत्पादन में कटौती से 2023 की दूसरी छमाही में कच्चे तेल की कीमतों को बढ़ावा मिलेगा।
- उम्मीद है कि सऊदी अरब तेल उत्पादन में कटौती की अवधि को बढ़ाते हुए सितंबर में भी प्रति दिन 1 मिलियन बैरल की स्वैच्छिक कटौती करेगा।
- गोल्डमैन सैक्स ने अनुमान लगाया कि जुलाई में वैश्विक स्तर पर तेल की मांग बढ़कर रिकॉर्ड 102.8 मिलियन बैरल/दिन हो गई और उसने भारत और अमेरिका में मजबूत आर्थिक विकास अनुमानों के कारण 2023 की मांग को लगभग 550,000 बैरल/दिन तक संशोधित किया, जिससे चीन की खपत में गिरावट की भरपाई हुई।
- चीन में मैनुफैक्चरिंग गतिविधि जुलाई में लगातार चौथे महीने कम हो गई, जबकि व्यापक व्यावसायिक गतिविधि भी खराब हो गई क्योंकि तेल का सबसे बड़ा खरीदार कोविड के बाद धीमी आर्थिक सुधार के साथ संघर्ष कर रहा है।
- अफ्रीकी देशों में तेल उत्पादन में कटौती से 300 हजार बैरल/दिन-400 हजार बैरल/दिन की कमी हो सकती है, जो ओपेक+ द्वारा पहले से ही वैश्विक आपूर्ति का 5 प्रतिशत आपूर्ति कम करने के बाद बाजार में अधिक कमी हो सकती है। इस बीच, ओपेक वैश्विक स्तर पर तेल तेल मांग को लेकर उत्साहित बना हुआ है, क्योंकि उसे 2024 में मांग 2.2 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है।
- रूसी तेल निर्यात में भी काफी कमी आई है और, अगर यह प्रवृत्ति जारी रहती है, तो संभवतः इससे कीमतें अधिक बढ़ जाएंगी क्योंकि अगस्त में रूसी तेल निर्यात में 500,000 बैरल/दिन की कमी होने की संभावना है।
- चीन, जो वैश्विक स्तर पर तेल मांग में वृद्धि का प्रमुख चालक है, ने उम्मीद से कमजोर आर्थिक सुधार को लेकर बाजार की चिंताओं को जन्म दिया है, इसलिए घरेलू मांग को बढ़ावा देने, उम्मीदों में सुधार करने और जोखिमों को रोकने के किसी भी प्रयास से तेल बाजार को समर्थन मिलेगा।
- अमेरिकी ऊर्जा विभाग के प्रवक्ता ने कहा है कि बाइडेन प्रशासन ने स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व के लिए 6 मिलियन बैरल तेल खरीदने का प्रस्ताव वापस ले लिया है, क्योंकि सऊदी अरब से उत्पादन में कटौती के बाद तेल की कीमतें बढ़ने की उम्मीद है।

### बाइडेन प्रशासन के दौरान अमेरिकी कच्चे तेल का उत्पादन (हजार टन में)



### एमसीएक्स में कच्चे तेल की कीमतों में साप्ताहिक बदलाव



स्रोत: रॉयटर्स

### नाइमेक्स में कच्चे तेल की कीमतों में साप्ताहिक बदलाव



स्रोत: रॉयटर्स

अगस्त 2023 में, कच्चे तेल की कीमतें तेजी के रूझान के साथ 6300-7000 के दायरे में कारोबार कर सकती हैं, जहां निकट सपोर्ट स्तर पर खरीदना बेहतर रणनीति होगी।

### नेचुरल गैस

जुलाई में, उत्तरी गोलार्ध में गर्मी के मौसम के दौरान मांग कम होने के कारण नेचुरल गैस की कीमतें नाइमेक्स और एसीएक्स पर लगभग 6% लुढ़क गईं। जैसे-जैसे औद्योगिक गतिविधि धीमी हो रही है और बिजली की खपत कम हो रही है, नेचुरल गैस की मांग में भी गिरावट हो रही है। बाजार की वर्तमान धीमी स्थिति में विभिन्न कारक योगदान दे रहे हैं, जिनमें उत्तरी गोलार्ध में गर्मियों की मांग में कमी और यूरोपीय आपूर्ति को प्रभावित करने वाले भू-राजनीतिक तनाव शामिल हैं। लेकिन, बाजार की क्षमता आशाजनक बनी हुई है, और आगामी सर्दियों के महीनों में संभावित रूप से आवासीय हीटिंग के लिए नेचुरल गैस की मांग में वृद्धि हो सकती है। रिफिनिटिव के अनुसार निचले 48 राज्यों में औसत गैस उत्पादन जुलाई में बढ़कर 101.7 बिलियन क्यूबिक फीट हो गया, जो जून में 101.0 बिलियन क्यूबिक फीट था, लेकिन महीने की शुरुआत में पाइपलाइन के रखरखाव के कारण मई में उत्पादित 101.8 बिलियन क्यूबिक फीट मासिक रिकॉर्ड से थोड़ा कम था।

### आउटलुक

- नेचुरल गैस बाजार में अस्थिरता दर्ज की गई क्योंकि यह मौसम की स्थिति से प्रभावित रहा। व्यापारियों और निवेशकों ने आपूर्ति और मांग के दृष्टिकोण पर बारीकी से नजर रखी, जिसमें मौसम के पूर्वानुमान, मुद्रास्फीति के आंकड़े और भंडारण स्तर बाजार के सेंटीमेंट को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- अधिक गर्म मौसम आने के साथ, रिफिनिटिव ने अनुमान लगाया है कि निर्यात सहित अमेरिकी गैस की मांग इस सप्ताह 106.1 बिलियन क्यूबिक फीट से बढ़कर अगले सप्ताह 106.9 बिलियन क्यूबिक फीट हो जाएगी क्योंकि एयर कंडीशनिंग की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए बिजली जनरेटरों के लिए अधिक ईंधन की जरूरत होती है।
- यूक्रेन के खिलाफ युद्ध के बाद प्रतिबंधों के बाद देशों द्वारा रूसी तेल और गैस की खरीद कम करने के बाद अमेरिकी एलएनजी की वैश्विक मांग बढ़ गई है। सर्दियों के दौरान कम तापमान और उत्तरी गोलार्ध में औसत से अधिक भंडार स्तर के कारण हाजिर कीमतों में कमी से कीमतों को लेकर अधिक संवेदनशील दक्षिण पूर्व एशियाई देशों से आयात बढ़ने की उम्मीद है।
- आईईए ने कहा कि बिजली क्षेत्र में कम गैस खपत और तेजी से बढ़ते नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के बीच यूरोपीय गैस की मांग अब 2023 में साल दर साल 7% घटकर 489 बिलियन क्यूबिक मीटर होने का अनुमान है।



अगस्त में एमसीएक्स पर नेचुरल गैस की कीमतें तेजी के रूढ़ान के साथ साइडवेज कारोबार कर सकती है, जहां कीमतों को 240 पर रेजिस्टेंस है। सपोर्ट 200 के करीब देखा जा रहा है।

# प्रतिभूति

आप इस रिपोर्ट को हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं- [www.smctradeonline.com](http://www.smctradeonline.com)



**Corporate Office:**  
11/6B, Shanti Chamber,  
Pusa Road, New Delhi - 110005  
Tel: +91-11-30111000  
[www.smcindiaonline.com](http://www.smcindiaonline.com)

**Mumbai Office:**  
Lotus Corporate Park, A Wing 401 / 402, 4th Floor,  
Graham Firth Steel Compound, Off Western  
Express Highway, Jay Coach Signal, Goreagon  
(East) Mumbai - 400063  
Tel: 91-22-67341600, Fax: 91-22-67341697

**Kolkata Office:**  
18, Rabindra Sarani, Poddar Court, Gate No-4,  
5th Floor, Kolkata-700001  
Tel.: 033 6612 7000/033 4058 7000  
Fax: 033 6612 7004/033 4058 7004

प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ लें। सेबी द्वारा दिया गया पंजीकरण और एनआईएसएम से प्रमाणन किसी भी तरह से मध्यस्थ के प्रदर्शन की गारंटी नहीं देता है या निवेशकों को रिटर्न का कोई आश्वासन नहीं देता है। उद्धृत प्रतिभूतियां केवल उदाहरण के लिए हैं और अनुसंधान नहीं हैं। एसएमसी सेबी द्वारा पंजीकृत एक अनुसंधान विश्लेषक है जिसका पंजीकरण संख्या आईएनएच 100001849 है। सीआईएन: L74899DL1994PLC063609 है।

एसएमसी ग्लोबल सिन्क्रोटीज लिमिटेड (जिसे एसएमसी कहा जाता है) का नियम भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा किया जाता है और इसे ब्रोकिंग व्यवसाय, डिपॉजिटरी सेवाएं और संबंधित सेवाओं करने का लाइसेंस प्राप्त है। एसएमसी ग्लोबल सिन्क्रोटीज लिमिटेड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, एमएस्&आई (मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड) का रजिस्टर्ड सदस्य है और एम/एस एसएमसी कॉम्प्लेक्स नेशनल कॉमोडिटी एवं डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड और मल्टी कॉमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया और भारत के अन्य कॉमोडिटी एक्सचेंजों का रजिस्टर्ड सदस्य है। इसकी सहयोगी एसएमसीएक्स स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड को सदस्य है। एसएमसी सीडीडीएसएल (CDSL) और एनएसडीएल (NSDL) के साथ डिपॉजिटरी भागीदार के रूप में भी रजिस्टर्ड है। एसएमसी को अन्य एसोसिएट सेबी और भारतीय रिजर्व बैंक के साथ मंचेंट बैंकर, पोर्टफोलियो मैनेजर के रूप में रजिस्टर्ड है। यह म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में एएफएफआई (AMFI) में भी रजिस्टर्ड है।

एसएमसी ग्लोबल सिन्क्रोटीज लिमिटेड सेबी (रिसेच एनालिसिस) रेगुलेशन 2014 के तहत रिसेच एनालिसिस के लिए रजिस्ट्रेशन संख्या INH100001849 के साथ रजिस्टर्ड संस्था है। एसएमसी ग्लोबल सिन्क्रोटीज लिमिटेड या इसके सहयोगियों को सेबी द्वारा अन्य किसी रेगुलेटरी एथारिटी द्वारा सिन्क्रोटीज मार्केट/कॉमोडिटी मार्केट में कारोबार के लिए प्रतिबंधित/निलंबित नहीं किया गया है। रिपोर्ट में रिसेच एनालिसिस द्वारा व्यक्त की गई राय केवल सार्वजनिक रूप से प्राप्त सूचनाओं/इंटरनेट आंकड़ों/अन्य विश्वसनीय स्रोतों, जिन्हें सत्य माना जाता है, पर आधारित है। एसएमसी रिपोर्ट में व्यक्त राय या सामग्री को लेकर कोई आश्वासन नहीं देता है और निवेशकों को सलाह दी जाती है कि निवेश के लिए कोई भी निर्णय करने से पहले बाजार को परिस्थितियों/जोखिमों का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन करें। रिसेच एनालिसिस, जिन्होंने इस रिपोर्ट को तैयार किया है, एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि इस रिपोर्ट में किसी कॉमोडिटी के संदर्भ में व्यक्त किया गया विचार/राय उनके निजी स्वतंत्र विचार/राय है।

**दिसक्लेमर:** यह रिसेच रिपोर्ट अधिकृत प्राप्तकर्ता को व्यक्तिगत सूचना के लिए है और इसका निवेशक को किसी निवेश, विधिक एवं कर संबंधी परामर्श से संबंध नहीं है। यह केवल प्राइवेट संकलन एवं उपयोग के लिए है। यह रिपोर्ट विश्वस्त सूचनाओं पर आधारित है लेकिन यह पूरी तरह सही और पूर्ण है, ऐसा जरूरी नहीं और इस पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। रिपोर्ट के कन्टेन्ट के आधार पर कोई कार्य नहीं किया जा सकता है। इस रिपोर्ट को एसएमसी से लिखित आज्ञा के बिना किसी भी रूप में नकल एवं किसी भी अन्य व्यक्ति को पुनः वितरण नहीं किया जाना चाहिए। इस सामग्री का कन्टेन्ट सामान्य है और यह न तो पूरी तरह से व्यापक है और न विस्तृत है। इस रिपोर्ट के आधार पर उठाये गये किसी कदम से होने वाली क्षति या नुकसान के लिए न तो एसएमसी और न इसका कोई संबंधी, सहायक, प्रतिनिधि, डॉपरक्टर या कर्मचारी को उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए। यह कोई व्यक्तिगत अनुमोदन नहीं करता या किसी खास निवेश उद्देश्य, वित्तीय स्थिति या किसी व्यक्तिगत ग्राहक या कॉर्पोरेट या सत्ता को जरूरतों को लेकर नहीं चलता है। सभी निवेश जोखिमपूर्ण होते हैं एवं पिछला प्रदर्शन भविष्य के किसी प्रदर्शन को गारंटी नहीं देता है। निवेश को वैल्यू और उससे प्राप्त आमदनी एक निश्चित समय में उपलब्ध कुछ बढ़े एवं सूक्ष्म कारकों के बदलाव पर निर्भर कर सकती है। निवेश का निर्णय लेते समय किसी भी व्यक्ति को अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए।

कृपया ध्यान रखें कि हम या हमारा कोई अधिकारी, सहायक, प्रतिनिधि, डॉपरक्टर या कर्मचारी, जो भी इस रिपोर्ट को बनाने या भेजने में शामिल है उसको (अ)समय-समय पर किसी भी कॉमोडिटी में, जिनका इस रिपोर्ट में जिक्र किया गया है, खरीद या विक्री, कोई भी पोजिशन हो सकती है और वह इस कॉमोडिटीज को खरीद या विक्री कर सकता है या (ब) साथ ही साथ वह इन कॉमोडिटीज के किसी भी प्रकार के सौतों में और ब्रोकरेज या अन्य प्रकार के प्रतिकर में अथवा बाजार निर्माण में शामिल हो सकता है, (स) इस रिपोर्ट में दिए गये सुझावों और संबंधित सूचनाओं एवं विचारों के संदर्भ में इनका अपना कोई भी निहित स्वार्थ या विवाद हो सकता है। सभी विवादों का निपटारा अंतिम रूप से दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीन होगा।